

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त 2015—भाद्र 6, शक 1937

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.